



पी. एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय तुरा, मेघालय

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA TURA, MEGHALAYA

पो०आ०-अरैमिले, न्यू तुरा, जिला- वेस्ट गारो हिल्स, पिन- ७९४१०१

P.O.- ARAIMILE, NEW TURA, DIST- WEST GARO HILLS, PIN- 794101

दूर/.Tel-- 03651-291243,291253



Email: kvtura1500@gmail.com

Website: <https://tura.kvs.ac.in>

KV Code: - 1500

School Code: - 39329

UDISE Number: - 17010700613

CBSE Affiliation Number: -1300001

फा.सं. 181500/331/18-KVT/2026-27/

दिनांक: 03.07.2026

NOTICE

SUBJECT: INVITING APPLICATIONS FOR ONE-TIME ANNUAL LOCAL TRANSFER (2026-27).

Parents seeking local transfer for their wards to other Kendriya Vidyalayas within Shillong for the academic session 2026-27 are hereby informed that the registration process has commenced.

Please note the following critical details and guidelines:

- **Submission Deadline:** Hard copies must reach the office by **20.07.2026**.
- **Application Format:** Parents must fill out the prescribed Local Transfer Application Form.
- **Submission Rule:** Submit forms in **triplicate** (three copies) directly to this school.
- **Complete Details:** Ensure all student and target school details are fully accurate.
- **Process Nature:** This is a strictly **one-time** annual opportunity.
- **Late Submissions:** No applications will be accepted after the closing date.

The prescribed proforma application form can be downloaded from the school website or collected directly from the school office during working hours.

प्राचार्य/Principal

पीएम श्री के. वि. तुरा/PM SHRI K V TURA

मेघालय, ७९४१०१/MEGHALAYA, 794101

(Subhrajit Biswas)

Principal I/C

PM SHRI KV Tura

केन्द्रीय विद्यालय, संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर
नियर लॉयन्स आई ,हॉस्पिटल .

कैप्टन एन सिलचर ,गुप्ता सरणी .एम -788001
(03842) 234009 (DC)/ 246886(ACs)
/245737 (AO) /261784 (FO)



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Ministry of Education, Govt. of India
REGIONAL OFFICE, SILCHAR
Near Lion's Eye Hospital, Captain
N.M. Gupta Sarani, Silchar-788001
E-mail: dckvsrosilchar@gmail.com
Web: www.rosilchar.kvs.gov.in



पत्र सं.29331/2026-के.वि.सं.(एस.आर) /Local Transfer/ 3635-65

दिनांक-02.07.2026

सिर्फ ई-मेल द्वारा

सेवा में,
प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
सिलचर संभाग

विषय:- छात्रों हेतु **One Time** वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि छात्र/छात्राओं के स्थानीय स्थानांतरण हेतु प्रोफार्मा संलग्न है। छात्र/छात्राओं के वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

01. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि: **20.07.2026** है।
02. अभिभावक वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का आवेदन प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण भरकर तीन प्रतियों में, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जमा कर दें।
03. प्राचार्य (जहाँ बच्चा पढ़ रहा है।) वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में अपनी टिप्पणी सहित संबंधित प्राचार्य को (यानी जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थानीय स्थानांतरण चाहता है।) दिनांक-**23.07.2026** तक भेज देंगे।
04. तत्पश्चात् जिस विद्यालय में छात्र/छात्रा स्थानीय स्थानांतरण चाहता है। वहाँ के प्राचार्य वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण के समस्त आवेदन प्रपत्र में दिनांक-**25.07.2026** तक के छात्रों के संख्या के आधार पर अपनी टिप्पणी सहित दिनांक-**28.07.2026** तक डाक द्वारा संभागीय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

NOTE:- प्राचार्य (जहाँ बच्चे का स्थानांतरण होना है।) कृपया के.वि.सं. के प्रवेश नियमावली के PART-A के Para-7 के Sub Para-(iii) के आधार पर ही स्थानीय स्थानांतरण के आवेदन को संभागीय कार्यालय में भेजें।


05. वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण-2026-27 के आवेदनों का निपटारा संभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा संभागीय स्तर पर किया जाएगा।

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण 2026-27 की सूचना (प्रपत्र सहित) विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड अवश्य करें।

नोट:- वार्षिक स्थानीय स्थानांतरण का यह प्रक्रिया One Time (Yearly) प्रक्रिया है। इसके पूरा होने के पश्चात् विद्यालय द्वारा स्थानीय स्थानांतरण से संबंधित कोई भी पत्र इस कार्यालय में प्रेषित न करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: प्रपत्र

भवदीय


(डॉ. अनुराग यादव)
उपायुक्त

Kendriya Vidyalaya Sangathan: Regional Office, Silchar
Application form for Local Transfer year 2026-27

(To be submitted in Triplicate)

Date.....

01	Name of the present school		
02	Name of the school where transfer is required		
03	Name of the Student		
04	Name of the Parents		
05	Class		
06	Department where the parents is working. (Give proof)		
07	If there is reason for change of residence, provide proof:-		
(a)	Date of allotment of Government accommodation (Attached certificate)		
(b)	Date of entry into newly constructed or purchased accommodation (Give proof)		
(c)	Distance of residence from present school		
(d)	Distance of residence from desired school		
08	Real brothers/sisters if studying in different KVs. then complete details of the student (attach the certificate):-		
(a)	Name of Student	Name of KV	
(b)	Name of Student (Brother/Sister)	Name of KV	
09	If there is a medical reason. (Give certificate)		
10	Other reason		

Signature of the parents (Father/Mother)

To be filled by the Principal of Present KV :-

(After filling 03 copies, 02 copies are to be sent to KV where local transfer is sought)

01	Average number of students in the class	
02	Category of the parents at the time of Admission (i.e. I, II, III, IV, V & VI)	
03	Date of admission in present school	
04	If transferred from KV, then the name of the previous school	
05	School attendance in this year	
06	Local Address at the time of admission:- (Attach photocopy of application)	
07	Remarks of Principal's (Recommended/Not recommended)	

It is certified that the above mentioned information is true as per records available.

Signature of the present Principal

To be filled by the school to which the student seeks local transfer.

(After filling of 02 copies 01 copy is to be sent to RO)

01	Average Enrolment in the respective class of the school for which transfer is desired)	
02	Remarks of the Principal Recommended / Not Recommended	

Signature of Principal

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सिलचर
स्थानीय स्थानांतरण वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन पत्र
(तीन प्रतियों में जमा किया जाना है।)

दिनांक-

01	वर्तमान विद्यालय का नाम	
02	विद्यालय का नाम जहाँ स्थानांतरण चाहिए	
03	विद्यार्थी का नाम	
04	पिता/माता का नाम	
05	कक्षा	
06	विभाग जहाँ अभिभावक कार्यरत है (प्रमाण-पत्र दें)	
07	यदि आवास परिवर्तन का कारण है तो प्रमाण दें।	
(क)	सरकारी आवास आवंटन की तिथि (प्रमाण दें)	
(ख)	नवनिर्मित अथवा खरीदे हुए आवास में प्रवेश की तिथि (प्रमाण दें)	
(ग)	वर्तमान विद्यालय से आवास की दूरी	
(घ)	इच्छित विद्यालय से आवास की दूरी	
08	सगे भाई/बहन यदि अलग-अलग के.वि. में पढ़ रहे हैं, तो छात्र/छात्रा का पूर्ण विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
(क)	छात्र/छात्रा का नाम	के.वि. का नाम
(ख)	छात्र/छात्रा का नाम(भाई/बहन)	के.वि. का नाम
09	चिकित्सीय कारण (प्रमाण पत्र दें)	
10	अन्य कारण	

अभिभावक (पिता/माता) का हस्ताक्षर

वर्तमान के.वि. के प्राचार्य द्वारा भरा जाना:-	
(03 प्रतियां भरने के बाद, 02 प्रतियां उस के.वि. में भेजी जानी हैं जहां स्थानीय स्थानांतरण मांगा गया है)	
01	कक्षा में छात्रों की औसत संख्या
02	प्रवेश के समय अभिभावक की श्रेणी (Category)
03	वर्तमान विद्यालय में प्रवेश की तिथि
04	यदि के.वि. से स्थानांतरित होकर आया है, तो पूर्व विद्यालय का नाम
05	विद्यालय में इस वर्ष की उपस्थिति
06	प्रवेश के समय का स्थानीय पता:- (आवेदन की छाया प्रति लगाएं)
07	प्राचार्य की टिप्पणी (स्वीकृत/स्वीकृत नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सत्य हैं।

वर्तमान प्राचार्य के हस्ताक्षर

उस विद्यालय द्वारा भरा जाए जिसमें छात्र स्थानीय स्थानान्तरण चाहता है।	
(02 प्रतियां भरने के बाद 01 प्रति संभागीय कार्यालय को भेजी जानी है)	
01	स्थानांतरण के लिए इच्छित विद्यालय के संबंधित कक्षा में औसत संख्या
02	प्राचार्य की टिप्पणियां (स्वीकृत/स्वीकृत नहीं)

प्राचार्य के हस्ताक्षर